



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

16 अक्टूबर, 2020

संख्या 42

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

मद	(₹ करोड़)				
	2019	2020		घट - बढ़	
	11 अक्टूबर	2 अक्टूबर	9 अक्टूबर	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	2200586	2653578	2675183	21605	474597
1.1 संचलन में नोट	2200573	2653562	2675166	21604	474593
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	13	16	17	1	4
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	527675	455586	439497	-16089	-88178
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4267	5382	5414	32	1147
2.6 अन्य बैंक	34081	29086	28564	-522	-5517
2.7 अन्य	287217	842755	886631	43876	599414
3 अन्य देयताएं	1094855	1379007	1381517	2510	286662
कुल देयताएं / आस्तियां	4148823	5365537	5416949	51412	1268126
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2922370	3709063	3751611	42548	829241
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	190277	266852	267714	862	77437
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	992010	1201155	1208894	7739	216884
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	402	-	-	-	-402
4.2 राज्य सरकारें	5179	13169	15478	2309	10299
4.3 नाबार्ड	-	25142	25142	-	25142
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	26625	119525	117467	-2058	90842
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	5653	23912	23923	11	18270
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	1964	1964	1964	0	-
7 अन्य आस्तियां	4343	4755	4756	1	413

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	9 अक्टूबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4034267	551505	43427	5867	432111	73698	909825	111793
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3721726	508783	42514	5737	387911	66570	823462	100903
1.2 स्वर्ण	267715	36598	863	113	37188	6020	77438	9820
1.3 विशेष आहरण अधिकार	10826	1480	32	4	25	47	656	49
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	34000	4644	18	13	6987	1061	8270	1022

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

9 अक्टूबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹432490 करोड़	2020													
	26 सितंबर	27 सितंबर	28 सितंबर	29 सितंबर	30 सितंबर	1 अक्टूबर	2 अक्टूबर	3 अक्टूबर	4 अक्टूबर	5 अक्टूबर	6 अक्टूबर	7 अक्टूबर	8 अक्टूबर	9 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	427531	427107	435238	433322	446606	456170	455586	426565	425920	428440	429678	429138	432186	439497
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	98.9	98.8	100.6	100.2	103.3	105.5	105.3	98.6	98.5	99.1	99.3	99.2	99.9	101.6

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	25 सितंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	215264	-3974	10902	-19084	39090	27535
1.2 बैंकों से उधार	45303	-2599	-16296	-18699	-12977	-17860
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	15802	-43	-3362	-362	449	4024
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14263674	15632	332689	696182	1106605	1357214
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	2.6	5.1	9.4	10.5
2.1.1 मांग	1576473	59988	-102402	-40530	99298	167587
2.1.2 मीयादी	12687202	-44357	435091	736713	1007307	1189626
2.2 उधारियां	256217	-2340	-37225	-53222	-33998	-84812
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	550983	2529	-11235	-52693	29866	18571
3 रिज़र्व बैंक से उधार	121495	-117522	-133210	-164128	-132138	74017
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	517456	-3140	-21161	-105990	41790	-101967
4.1 उपलब्ध नकदी	87541	1532	12104	281	14475	561
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	429915	-4672	-33265	-106271	27315	-102527
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	152987	3042	14194	-2414	48789	-84255
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11399	-434	-11826	-8874	-11981	-9027
5.3 बैंकों को अग्रिम	21374	-3534	-4050	-9158	-13199	-4211
5.4 अन्य आस्तियां	32214	-1974	-7722	-21818	10215	-2942
6 निवेश	4439138	37439	311697	691788	244767	746384
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	9.2	18.5	7.1	20.2
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4437509	37835	310378	698813	243076	748130
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1629	-396	1319	-7024	1691	-1745
7 बैंक ऋण	10271857	44210	-2869	-99004	787190	503003
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	-0.0	-1.0	8.8	5.1
7 क.1 खाद्य ऋण	66427	2573	18475	14663	12422	6342
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10205430	41638	-21344	-113666	774768	496662
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10111153	43014	38557	-38356	806060	550602
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	20270	509	-1871	-5387	4089	-4082
7 ख.3 भुनाए गए	94173	-1512	-31936	-51510	-15420	-32187
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	18356	1578	-344	-2101	-1324	-5887
7 ख.5 भुनाए गए	27904	622	-7274	-1649	-6217	-5443

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	11 अक्टूबर	11 सितंबर	18 सितंबर	25 सितंबर	2 अक्टूबर	9 अक्टूबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.75	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.74	3.65	..	3.63	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	75.66	71.78	..	72.01	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	4.85	-21.04	..	-14.22	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.64	30.89	..	31.12	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	89.05	96.15	..	99.37	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिक्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.95/9.40	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/9.00	7.40/9.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.70/8.20	6.65/7.15	6.65/7.15	6.65/7.15	6.65/7.10	6.65/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.25/7.00	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.06	3.40	3.41	3.41	3.41	3.41
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.20	3.23	3.32	3.36	3.36	3.28
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.33	3.52	3.55	3.58	3.58	3.42
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.41	3.63	3.69	3.73	3.73	3.51
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.54	6.06	6.03	6.06	6.02	5.96
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.03	73.47	73.30	73.73	73.38	73.21
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	78.24	86.97	86.88	86.04	86.22	86.21
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.72	3.76	3.85	3.74	3.68	3.61
3-माह	3.80	3.95	3.96	3.80	3.82	3.72
6-माह	4.08	4.04	4.04	3.91	3.98	4.02

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बैंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीकी/यूरोल भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	25 सितंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	17741065	1945	0.0	382101	2.5	941101	5.6	1391260	9.6	1926897	12.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2585272	-14968	-0.6	36989	1.8	235524	10.0	246262	13.4	496074	23.7
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1697323	59117	3.6	-101285	-6.2	-40370	-2.3	102037	7.2	172096	11.3
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13415649	-42962	-0.3	446158	3.8	741633	5.9	1036560	9.3	1247887	10.3
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42822	758	1.8	239	0.8	4314	11.2	6400	25.0	10841	33.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4906583	5518363	-99626	-1.8	448645	10.2	611780	12.5	535135	12.4	681228	14.1
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	836430	-140569		134938		-155762		289895		-100459	
2.1.2 अन्य बैंक	3914391	4681933	40943	0.9	313707	8.7	767542	19.6	245240	6.7	781687	20.0
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10934182	43948	0.4	-3773	0.0	-104462	-0.9	807049	8.4	555236	5.3
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	14740	896		-7260		1574		-1025		6637	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	10919442	43052	0.4	3487	0.0	-106036	-1.0	808074	8.5	548599	5.3
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4196203	20762	0.5	195195	6.4	395166	10.4	235022	7.8	930167	28.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26451	-	-	137	0.5	103	0.4	327	1.3	427	1.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	2972648	2934134	-36862	-1.2	258103	10.6	-38514	-1.3	186273	7.4	240161	8.9
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1378342	1384384	-24215	-1.7	7143	0.7	6042	0.4	-61157	-5.4	318446	29.9

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	9 अक्टूबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3217964	3437	0.1	55007	2.0	188258	6.2	337068	13.5	392476	13.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	2447312	2701617	21604	0.8	89848	4.2	254305	10.4	269936	13.8	474999	21.3
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	473475	-16579	-3.4	-35946	-6.0	-70413	-12.9	58515	11.5	-92548	-16.4
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	42873	-1588	-3.6	1105	3.5	4365	11.3	8616	35.6	10026	30.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	925601	-21502		196235		-66591		290722		-72585	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	910165	-23811		192576		-79576		292422		-82884	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-381912	-15920		-366761		-181019		-240570		-168002	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-396716	-15930		-359010		-182657		-239277		-175194	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4029998	43359	1.1	262418	9.2	439595	12.2	206789	7.1	918993	29.5
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26451			158	0.6	103	0.4	348	1.4	406	1.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	1378342	1382173	2500	0.2	37043	3.5	3831	0.3	-79778	-6.8	286335	26.1

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफ सी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+ 9+10+11+12+ 13-2-4-7-8)	
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय						
	1	2	3	4				5	6						7
5 अक्टूबर 2020	-	564267	-	-	121	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-	-564146
6 अक्टूबर 2020	-	543339	-	-	0	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-542339
7 अक्टूबर 2020	-	534641	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-534641
8 अक्टूबर 2020	-	545888	-	-	0	-	-	-	5790	-	-	-	-	-	-540098
9 अक्टूबर 2020	-	539325	-	-	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-539315
10 अक्टूबर 2020	-	672	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-672
11 अक्टूबर 2020	-	598	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-598

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं।

**1 जुलाई 2020 के भा.रि.बैं. अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार

& ऋण (-) का चिन्ह बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अगस्त	सितंबर	अगस्त	सितंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	145.0	145.8	154.7	156.5	1.2	5.3	7.3
1.1 ग्रामीण	145.7	146.7	155.4	157.6	1.4	5.2	7.4
1.2 शहरी	144.2	144.7	154.0	155.2	0.8	5.4	7.3
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100)	320.0	322.0	338.0	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	121.5	121.3	121.7	122.9	1.0	2.1	1.3
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	144.0	143.0	146.3	150.3	2.7	9.4	5.1
3.2 ईंधन और बिजली	101.2	100.6	91.4	91.0	- 0.4	- 8.5	- 9.5
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.8	117.9	119.3	119.8	0.4	1.0	1.6

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
11 सितंबर 2020	87710	618	4.07 - 4.40
25 सितंबर 2020	75570	6493	3.51 - 5.75

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
		1	2
15 सितंबर 2020	418271	106924	3.10 - 8.87
30 सितंबर 2020	362310	86727	3.32 - 11.86

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	11 अक्टूबर 2019	2 अक्टूबर 2020	9 अक्टूबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	24812	16084	19586
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	928	6550	1266
3 सीबीएलओ#	279729	358058	285175
4 बाजार रेपो	175746	413981	369855
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	180	2525	4120

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

9 अक्टूबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	3640	17211	58030	214306
182-दिवसीय	163138	56336	3738	348816
364-दिवसीय	136507	120865	16792	397196
सीएमबी				

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (9 अक्टूबर 2020 तक)	2019 - 20 (11 अक्टूबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (9 अक्टूबर 2020 तक)	2019 - 20 (11 अक्टूबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	766000	458000	710000	635428	356972	473972
2. राज्य सरकारें	375946	244779	634521	316339	166077	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।